

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्ति
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ
पन्ने हैं यह मापी पुस्ति श्री. ~~मिस्टर ब्रामण्डल~~
सहायक अधियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर ब्रामण्डल ~~२९.५८८८~~ को निर्गत
किया जाता है।

१८/०३/२२
कार्यपालक अधियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रबंधल, ग्रामीण
~~२९.५८८८~~

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2730

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Iston A/c Bill

1

Name of work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Name of work:-</u>	<u>construction of road And cp-work from NH 105 to charapur club road under masonry (sc) head</u>				
<u>Agreement no.:-</u>	<u>79 S.C.D / 2021-22</u>				
<u>Agency :-</u>	<u>m/s mayan Enterprises</u>				
<u>Date of start:-</u>	<u>13-01-2022</u>				
<u>Date of completion:-</u>	<u>12-01-2023</u>				
(Revised measurement off)					
<u>item no (1) :-</u>	<u>plf setting out pillars - - - of E12</u>				

$$1.00 \times 100 \rightarrow 100 \\ \rightarrow \text{Total} = 100$$

item no (2) :- clearing And

scrubbing of vegetation - of E12

$$5 \times 30 \times 3.50 = 525 \text{ m}^2$$

$$10 \times 30 \times 3.50 = 1050 \text{ "}$$

$$12 \times 30 \times 3.50 = 1260 \text{ "}$$

$$10 \times 30 \times 3.50 = 1050 \text{ "}$$

$$5 \times 30 \times 3.50 = 525 \text{ "}$$

$$5 \times 30 \times 3.50 = 525 \text{ "}$$

$$\rightarrow \text{Total} = 4935 \text{ m}^2$$

$$\text{Qty} = \frac{4935}{10000} = 0.494$$

$$\rightarrow \text{Total} = 0.49 \text{ Hects}$$

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no (6) laying w. B. m - 672 III - of II					
Qty. ride from BP - 5					
Qty = 463.29 m ³					
@ Rs 3535.76 / m ³ = Rs 1425937 =					
item no (7) i - Excavat					
concrete permeat - of II					
Qty. ride from BP - 5					
Qty = 112.11 m ³					
@ Rs 6982.08 / m ³ = Rs 782761 =					
item no (8) i - Earth work					
In Excavation found - of EI					
Qty. ride from BP - 0.3					
Qty = 89.37 m ³					
@ Rs 278.09 / m ³ = Rs 24942 =					
item no (9) i - Providing (M-15)					
p.c.c in found - of EI					
Qty. ride from BP - 0.2					
Qty = 13.74 m ³					
@ Rs 5515.57 / m ³ = Rs 75949 =					
item no (10) i - Plain (R.C.C)					
in substance - of EI					
Qty. ride from BP - 0.3					
Qty = 10.22 m ³					
Continuation					
@ Rs 6310.13 / m ³ = Rs 638711 = w					

Sch. XLV—Form No. 134

Continuation